



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 411) पटना, मंगलवार, 31 मार्च 2015

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
(34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड) पटना-1)

अधिसूचना  
27 मार्च 2015

सं0 अ0सं0क0-24-05/2014-3505—वक्फ अधिनियम 1995 (अधिनियम सं0 43/95) के अन्तर्गत सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हेतु अधिनियम (43/95) की धारा-14 की उप-धारा (1)(बी) के अन्तर्गत वर्णित विभिन्न कोटियों में से उप-धारा (2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में निर्वाचन मंडल का गठन कर बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान है।

2. चूँकि तत्काल नामावली निर्मित कर निर्वाचन मंडल का गठन करने में समय लगने की संभावना है और बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है तथा प्रशासक श्री शारिम अली के द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया गया है, अतः अधिनियम (43/95) की धारा-14 की उप-धारा (3) एवं (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार धारा-14(1)(बी) में वर्णित विभिन्न कोटियों में से सदस्यों को नामित कर निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :-

क्र0 सं0	सदस्य का नाम एवं पता	उम्र (लगभग)	कोटि
1	2	3	4
1.	श्री अली अनवर अंसारी, 226/6 हारुन नगर कॉलनी, सेक्टर 2, फुलवारी शरीफ, पटना।	61 वर्ष	संसद सदस्य
2.	श्रीमति कहकशों परवीन, इसाक चक, वार्ड नं0- 47, जिला- भागलपुर।	36 वर्ष	संसद सदस्य
3.	मो0 हारुण रशीद, आर ब्लॉक, रोड नं0- 8, पटना।	61 वर्ष	विधान पार्षद
4.	श्रीमति रजिया खातून, न्यु फ़ैमली टाइप- 8, आर ब्लॉक, पटना।	57 वर्ष	विधान-सभा सदस्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम एवं पता	उम्र (लगभग)	कोटि
1	2	3	4
5.	मो० सैदुल्लाह, मो०- बेलदारी, पो०- बरबत, पसरैयन, थाना- बेतिया मोफरसिल, जिला- प० चंपारण (बिहार)	62 वर्ष	बार काउन्सिल सदस्य
6.	सैयद शाह मो० सैफुद्दीन फिरदौसी, खानकाह मुअज्जम, पो०- बिहार शरीफ, जिला-नालंदा	49 वर्ष	मोतवल्ली
7.	अलहाज मो० इरशादुल्लाह, मो०- वाजिदपुर, व्हाइट हाउस, बाढ़, पटना।	58 वर्ष	मुस्लिम संगठन
8.	प्रो० सैयद शाह शमीमुद्दीन मोनमी, खानकाह मोनिमिया मीतनघाट, पटना सिटी।	55 वर्ष	मुस्लिम विद्वान
9.	मो० हसनैन खॉं, संयुक्त सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, पटना।	59 वर्ष	संयुक्त सचिव (पदेन)

3. गठित बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम (43/95) की धारा-15 में वर्णित अवधि पाँच वर्ष अथवा नामावली के निर्मित होने के पश्चात निर्वाचन मंडल का विधिवत् रूप में गठन कर सदस्यों का चुनाव होने की अवधि, जो पहले हो, तक रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 411-571+50-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>